

KOTIA ENTERPRISES LIMITED

Formerly known as INTERNATIONAL PUMPS AND PROJECTS LIMITED

Date: 12.11.2020

The BSE Limited
Phiroze Jeejeeboy Towers
Dalal Street,
Mumbai- 400001
Email Id: corp.relations@bseindia.com

Metropolitan Stock Exchange 4th Floor, Vibgyor Towers, Plot No. C-62 Bandra Kurla Complex, Bandra east Mumbai- 400098 Email Id: raviraj.nirbhawane@mcx-sx.com

Subject: Newspaper Advertisement of Financial results of the company.

Dear Sir(s)

Pursuant to Regulation 30 & 47of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we are forwarding herewith copies of Newspaper clippings of unaudited financial results of the company for the quarter/half year ended 30th September 2020 on Thursday, 12th November, 2020 in "Financial Express", in English language and "Jansatta", in Hindi language.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully

For Kotia Enterprises Limited

Sunil Kumar

(Company Secretary)

bib

br 81.

668 ego.

25

加北

FINANCIAL EXPRESS

KOTIA ENTERPRISES LIMITED

Regd. Off.: 905, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN: L74110DL1980PLC010678 Tel:- 91-11 -40045955

E mail: compliance@kotaenterprises.com, Website: www.kotaenterprises.com
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE OUACITER HALL YEAR ENDER OU ER / HALF YEAR ENDED ON

and the second	10112-11411	 Ange		ANTERES	200	1000
		EP	TEN	REP	30	2020

SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY.				(Rs. In Lakhs
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2820 Unaudited	Half year ended 30.09.2020 Unaudited	Previous year ended 31.03.2020 Audited
1	Total income from operations (net)	34.98	74.71	4313.06
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	3.56	16.37	132.28
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.58	16.37	132.28
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.34	11.82	95.34
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1.73	11.68	108,99
6	Equity Share Capital	702.05	702.05	702.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		7,00	702.05
	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of ₹ 104- each) Basic :	0.03	0.17	1.36
	Diluted :	0.03	0.17	1,36

- The above Unaudited financial results for the quarter ended 30th September, 2020 has been reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th November, 2020
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended Sep 30, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and half year ended are available on the website of BSE at www.bseindia.com.
- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind-AS Rule.

For Kotia Enterprises Limited

Date: Nov 11, 2020 Place: New Delhi

Ankit Agarwal (Managing Director) DIN: 05254327

FORM G

Invitation for Expression of Interest
(Under Regulation35A (1) of the insolvency and Bankruptcy Board of India [Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2018) for the attention of prospective Resolution applicants of M/s D-Zone Networks Pvt. Ltd.

	. Name of the corporate debtor	M/s 0-zone Networks Pvt. Ltd.
2	Date of incorporation of corporate debtor	01/08/2007
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Ministry of Corporate Affairs, Registrar of Companies (Roc)- Delhi & Haryana
4	number of corporate debtor	U723000L2007PTC165507
5.	if any) of corporate debtor	91, Springboard, E-43/1, Okhla Industrial Area, Phase-2 New Delhi-110019
6.	and the corporate desires	(As per order dated 04.09.2019 of NCLT, New Delhi in Company Petitio No. (IB)-1445/ND/2013 received by IRP on 11.10.2019
7.	Date of invitation of expression of interest	12.11,2020
8.	25(2)(h) of the Code is available at:	Refer the detailed invitation of interest to be provided on request at e-mail:-erura.shyaam@yahoo.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Refer the detailed invitation of interest to be provided on request at e-mail-arora, shypam@yahoo.com
0.	Last date for receipt of expression of interest	20.11.2020
1.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	30.11,2020
2.	Last date for submission of objections to provisional list	95.12.2020 -
3.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	15.12.2020
4.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	05.12.2020
	Manner of obtaining request for resolution plan(RFRP), evaluation matrix(EM), information memorandum(M) and further information	Prospective resolution applicant shall be provided dopy of RFRPEM, IM Electronically on automission of Non-Disclosure Undertaking Rs 25,000 towards interest free deposit
	Last date for submission of resolution plans	25.12.2020 before 6 PM
	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Resolution plan to be submitted in sealed envelope to Resolution Professional at below mentioned address
8.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approvel	14.01.2020
1	Name and registration number of the resolution professional	Shyem Arera IBBI/IPA-002/IP-N005 46/2017-18/11703

Corp. Ltd.

SUP1940PLC000946 e, Amrit Nagar, G.T. Road, Ghaziabad - 201 009 (U.P.) re, A-95, Sector-65, NOIDA - 201 309 (U.P.) absite: www.amritcorp.com | Email: info@amritcorp.com

	Quarter ended		Half-Yea	r ended	Year ended
020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020
To ted)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Ne ¹	494.28	1,927.41	1,150.79	3,920.10	7,424.68
Ne ⁸	558.29	71.29	1,055.77	378.50	(700.72)
Tot ₈ [Cr	558.29	71.29	1,055.77	378.50	(700.72)
Otl ₄ Eq	323.81	99.19	664.25	410.18	(259.29)
C1 ₈ Otl Re	329,58	127.67	660.10	431.44	(297,35)
Shi2	321.32	321,32	303.82	321.32	321.32
Nc				Mary Property	19,517.76
1.1					.1.
T	10.08	3.09	21.86	12.77	(8.07)
Vol.	10.08	3.09	21.86	12.77	(8.07)

esuits for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020 filed with the Stock | Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited 2020 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on

iar ended September 30, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and November 11, 2020. The Statutory Auditors have carried out a limited review of the aw Report of the Auditors have been filed with BSE Ltd. price of Rs 825-5 per equity share, for an aggregate amount of Rs. 1,443.75 lakhs lany, as approved by the Board of Directors in the meeting held on June 22, 2020. he Paid-up Equity Share Capital post buy-back stands at Rs. 303.82 lakhs.

ely impacted the Dairy business of the Company and the current environment may he above and considering the internal and external factors, the Company has taken name financial results for the quarter and half-year ended September 30, 2020, it of financial and non-financial assets. The Company will continue to monitor any impact on its business, if any, and make necessary adjustments in the relevant

Daherever considered necessary, to conform to current year's classification.

for Amrit Corp. Limited Sd/-(N. K. Bajaj) Chairman & Managing Director

NERAL FINANCE LIMITED

L74899DL1930PLC000208

Ext 4 / 17B, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI 110002.

http://www.mgfltd.com, Phone : 23272218-18, 23278001-02

Standalone and Consolidated Financial

	Standalone		Consolidated				
2	Six Months ended	Quarter ended	Quarter ended	Six Months ended	Quarter ended		
•	30-09-2020 (Unaudited)	30-09-2019 (Unaudited)	30-09-2020 (Unaudited)	30-09-2020	30-09-2019		
3	98.90	187.11	75.99	(Unaudited) 98.90	(Unaudited) 187.11		
4	(359.81)	(87.30)	(186,19)	(359.81)	(87.30)		
	(359.81)	(87.30)	(186.19)	(359.81)	(87.30)		
5	(359.81)	(87,30)	(185.45)	(358.60)	(51.14)		
6	(354.25)	(87.36)	(182.53)	(352.79)	(51.20)		
7	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36		
8							
	(0.03)	(0.23)	(0.48)	(0.02)	(0.12)		

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

THE UNR NO 2813, Ind Floor, Plaza, Central Square, 20, Manohar Lai Khara.

Floor Hara Hadu Rap, Oshi 1: 1006

Chi: L59900_15898. Co22912, Ph. 9141539140

E-mail ID: Imitedatiantic@mail.com, Website: www.atlandic-commercial.com
EXTRACT OF UNAUDITIES STATEMENT OF FINANCIAL, RESULTS

FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2620

ATEN SATE MENT OF FIRMADOVEN THE REPORT OF THE REPORT Total income from operations

Not Profit/[Loss) for the period (before tax,
Exceptional and/or Extraordinary items)

Not Profit/(Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items) (0.67) (1.62) (0.51) (2.29) (1.98) 1.62 (0.67) (1.62) (0.51) (2.29) 1.62 (1,98) (after Exceptional and/or Extraordinary Hems)
Net Profit(Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary Items)
Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit(Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax)
Equity Share Capital (0.58) (1.63) (0.46) (2.31) (1.93) 1.18 (1.63) 73.50 (0.46) 73.50 (1,93) 73.50 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the provious period 47.25 Earnings per share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic (in ₹): 2. Diluted (in ₹): (0.10) (0.22) (0.10) (0.22)

viale. The doors is an extract of the statised format of Financial Results for the second quinter and half-year ended 50th Soptember. 5000 fined with the Globel Exchine grade Regulation of the SEBE (Ealing Goldston and Disclosure Requirements Regulations Regulations Regulations (Ealing Southern Southern Regulations Regulations

Narendra Kishore Gaur Chairman DIN - 00168265

HINDUSTAN EVEREST TOOLS LTD. Regd. & H.O. Dohill Chambers, 46, Nehru Place, New Dohil 118 019
CIN: 1,7493901 1962P1.C093634, Ph;31-11-46575476
mail: admin@everesttools.com, Web-site: http://www.everesttools.com

EXTRACT OF LINAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS OR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2029

		buarter ende	d	Half Yea	r Ended	year ended
Particulars	30,09,2020 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	30,09,2029 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
Total income from continuing operations (Net) Net Profit /(Loss) for the period from continuing	23.65	15.15	53,67	36,80	73,97	160,78
operations (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary kernst!) Net Profit /(Loss) for the period from continuing.	(21,47)	(32.36)	(3,22)	(63.83)	(53.88)	(233.17)
operations before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period from continuing	(21,47)	112.74	(3.22)	91,26	(53.88)	(233.17)
operations after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) from discontinued operations for the period after tax (after Exceptional and/or	(17,89)	98,51	(3.22)	80.62	(53.88)	(1308.36)
The period after tax (once Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)		(2.69)		(2,69)		(154,51)
and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid up Equity Share Capital	(17.89)	95,82	(3.22)	77.94	(\$3,88)	(1462,87)
(Fece Value of Rs. 10/- each) Other equity	160.72	160.72	160.72	160,72	160.72	160.72
Ciner equity Earning/ (Loss) Per Shale from continuing operations (Not annualised)						1,417,72
(a) Basic (Rs.) (b) Diluted (Rs.) Earning/ (Loss) Per Share from discontinued	(1,34) (1,34)	7,01	(0.20)	5.68 5.68	(3.35) (3.35)	(14,51) (14,51)
operations (Not annualised) (a) Basic (Rs.) (b) Diuted (Rs.)	:	(0.16) (0.16)		(0.16)		(9.61) (9.61)
Earning/ (Loss) Per Share from continuing and discontinued operations (Not annualised) (a) Basic (Rs.)	(1,34)	6.85	(0.20)	5.52	(3.35)	(24,12)
(b) Diuted (Rs.)	(1,34)	6.85	(0.20)	5.52	(3.35)	(24,12)

noses:
The above Statement of "Unaudited Financial Results" for the quarter and half year ended September 30, 2000 ("the Statement") has been inviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors in its meeting had on November 11, 2020. The Statebor Auditors have its

eccaped in India.

It is an activat of the detailed formal of Quarterly Financial Reputs fled with Slock Exchange under Regulation 33 of the SEB Deligations and Disclosure Regularmental Regulation, 2015. The full formal of the quarterly Financial Results are available or ergic website www.beshdia.com and the Company's website www.exercetbook.com. FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Date: 11th November, 2020 Place: Nehru Place, New Delhi



नीर्ड टीएंडडी इंडिया लिमिटेड

- पेपाल के मानक्षेत्र में एक्क्वेरिएन शिकिटेंड के लिए 420 को में इस्कृटेंड मानस्टेंडमा (पीआईएन) पैकेज जिसके ट्रास्कार्यन और पिद्यार मार्गिक में जो कि मानस्ट पिक कार्योश्यान बीक्ट हिंदिया शिकिटेंड से कार्योंनी मुद्र के सामान्य मंत्रीय हैं। इस्तार मार्गिक में जानिक शिक्टेंड के दिवस में में महत्या में इस्तार के मार्गिक में हा महिता हैं। शिक्तांचुं और दोलामा के राज्यों से में मार्गुक में स्वारम में इस्तार हैं। सिर्वेट (एक्केमांट्र)एं) हारा 190 केंगी और 420 कोंगी स्वार्ट्यमान में हिन्द में प्रतिकृति हैं। एक्कामा के मार्गुक हैं। एक्किमा में स्वार्ट्य में सिर्वेट (एक्केमांट्य) हारा 1905 केंगी और 420 कोंगी स्वार्ट्यमान में दिवस में किए केंग्र से एक्किमा हैं। सिर्वेट (एक्कामा के में सिर्वेट) सिर्वेट हार्थियान कार्योश्यान सिर्वेट हारा में मार्गुक में स्वीर्थन एड्र, कक्क्ष्री केंट विकाद एड्ड में सीर्वेट
- भान् भी गई गुरुर परितंत्रकाए

- प्रतिपत्नी के पुनारिपेशी के लिए उठा खंड के साम बेनलेटर ट्रांग्यामंत्र 2. के 245 केवी के 2. खंड। कतानपंत के पुनारिपोरी के लिए 466 कोती 2.55 प्रतिप्रतार का पिएनटर। पूज के पीजीनीवार्ष्ट्रण के लिए 466 कोती के 346 की 2.26 केवी के 6 व्हेंग पूजर प्रतृतिदेन तानवरेगा कर है। पंतर पोरवा के जीवित कारणी विचार के कीती कर 366 की पूजर केवी पहण प्रतृतिदेश सानवरेगा का 1 व्हेंग । पाठिया के प्रतिप्रतिप्ता कारणी विचार केवी कीतिका विचार केवी कीत प्रतृतिक कीता कारणे के 6 व्हेंग । पाठीन के प्रतिप्तार केवी विचार के कीतिका विज्ञान कारणे कीतिका विचार कारणे की तिप्ता पाठव द्वांसीपान कार्योग तिपिटेट (वीपीटीशी के तिप्त 1.22 की पाठवेश की स्वरूप देश सामस्तिप्त के 7 व्हेंग
- काल प्रश्न का संस्थान के 2 कहा। क्षणियोमीम बीचिन काम प्रश्न के की कर पूर्वीय ओपीयोमीहत में दूसरा द्वास्थानंद जारी किया। क्षणी वर एक्पीवीटीवीएस के निवृद्ध कोगी मेंब दूसूनेटेंड सक्स्ट्रेशन के 3 बंद। 30 सितंबर 2020 को समाप्त सिमाटी और कमाटी के लिए अलेखापरीक्षित विशीय परिणामों का सार्शरा

	AND A CONTRACT OF STREET	49050	विकारी	अमाही	समाप्त वर्ष
क. संख्या	Rasem	30.09.2020 (अलेखापरीहिता)	30.09.2019 (Nobestrictifies)	30.09.2020 (aud earw fifter)	31.03.2020 ओस्वापशीक्षत
1.	জুল আব	8,765.3	8,321.3	15,269,0	32,182.1
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/वा असाधारण गर्दों से पूर्व)	131.5	(236.6)	(130.7)	(3,021.0)
3.	कः पूर्व अवधि के लिए गुद्ध लाग/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से बाद)	131.5	(772.2)	(130.7)	(3,556.6)
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाग/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से बाद)	86.1	(810.8)	{117.1}	(3,025.6)
5.	कार्षि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर परणात) और अन्य व्यापक आय (कर परचात) के लिए लाम हानि मिलाकर]	67.5	(814,1)	(154.1)	(3,209.4)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	512.1	512.1	512.1	512.1
T.	सारतित (पुनर्न्यांकन सारतितों को प्रोडकर) जैसा कि पूर्व वर्ष के सकेतित दुलना एव में दशोई गई है				10,002.8
8.	अवधि के लिए मूल और तनुकृत इपीएस (प्रत्येक रु 2 का अकित मृत्य) (रुपयों में)	0.3	(3.2)	(0.4)	(11.8)

- www.neonaus.com पर पर्पारम हो। जु ज्यापूर्व अर्थेकारिक परिणानी की लेकारपेका सोमीठे द्वारा समिता की गई है राज्य यसे दिगांग 18 गयंबर, 2020 को आशंकित गिरोधन अंकल की बैंकन में अनुपत्तित किया जया। 36 किताबर 2020 को समाम तिमाठी एवं भागती के लिए आलेकारपित पर्पारम कथानी स अंकानिक नेताब्येकीकों द्वारा जोटिंदि पांचा जा चुका है।

जीई टीएककी इकिया लिमिटेड के लिए

युपी होटल्स लि. CIN:L\$5101DL1941PLC017007 वर्ष: कार्याच्या 113:, वृष्टी कार्याः अस्त्याः वाची कर्मः वृष्टे विकासः १८ कार्याच्या वाची कर्मः वृष्टे विकासः देशीः 01-2072154-8-4. केवारः 11-2351940. विकासः clarkonuryakiran@yahoo.co.in. वेषः www.hotelclarks.com

	FGROPH .		teator florigh	-	Market 1	समाज का	
		10.9.2020 (2012) (2012)	10.6.2020 (artiklige)	30.6.3016 (3228kfapt)	३०.स.३०३० (अरमकेवित्स)	३०.१.३०११ (अस्मेक्टिक्स)	37.3.2020 (atikfijes
1.	परिशासने से कुल आह	274.64	141,11	1722,41	415.55	3562.52	9750.54
2	आर्थि के लिए सुद्ध संबंध (उति) (का, विकास एवंध्वनाक ज्याचारण वर्त व पूर्व)	(830.70)	(447.37)	(475.54)	(1278.02)	(605-98)	367.15
1.	असावारण मर्ट के बाद।		(447.32)	(475.54)	(605.46)	(605.48)	367.1
4,	का ही बाद अर्थीय के लिए शुद्ध लाध्य (झाँम) (विशित्त्य एवं अवका आंत्रधारण मद्दे के बाद)	(821.63)	(334.74)	(366.49)	(956,37)	(525.60)	370.4
5.	अन्ति हेतु कुल स्थापक आप (अन्ति हेतु (बार के बाद) साव/ (इसी) एवं रूप्य स्थापक अर्थ (कार के बाद में इसीमत)	(601.71)	(289.25)	(347.17)	(840.44)	(476.18)	(443.11)
ė.	इंकार्ट शेव पूर्व	540.00	(289.25)	540.00	540.00	540.00	540.00
7,	आर्थात (पुनर्गृत्याकर आर्थात के अतिरिक्त)				8269.21	8240.68	9160.17
ě.	आप प्रति संगर (स. १६४- प्रति कर)		1000	-			
	To and the second secon	(11.51)	(6.20)	(6.78) (6.78)	(17.71)	(4.73)	6.5

प्रणानी. प्रणांक गोंकारों को आहिट कारियों द्वारा करीका की गई तका 31 तरफार, 2000 को आगोरिक उनकी बैठक में कमानी के निरोक्त संक्षण इसा अनुशीरित किसे गोर्ट में सारितिक विद्या-परिकारी हास सीचित अर्थित के अपनेर रहा तका है। , सार्थिक पितारा में दि गुर्विका नव अस्त प्रयादका अर्थाक कि तिकारका, 2016 के विशासित 33 के अर्थान करीक एक्सरीय के प्रणा पारिका की गाँ 30 तिकारम, 2020 को अरमान विश्वाती तका सकती के औरहार्यांत निर्माण के समूर्या विकास प्रमाण का तस है। निरामी एवं अमानी तिनीति पार्टीका में सूर्यांत प्रकार सर्वात एकसोना की वेशसाईट myss-horization का तस का कारण है। भागमी एवं अमानी तिनीति पार्टीका में सूर्यांत प्रकार सर्वात एकसोना की वेशसाईट myss-horization का तस कामने की वेशसाईट भागमा-horization प्रथम में त्रावास है।

अपूर्व कुमार, सपक पुता (संयुक्त प्रक्रम निदेशक)

ANAND PROJECTS LIMITED

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTH ENDED SEPTEMBER 39, 2020 (Ks. In Laki, except per share data)

Particulars	Quarter Ended	Six Month Ended	Quarter Ended	
	September, 30 2020	September, 30 2020	September, 3 2019	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
Total Income from Operations	1.96	1.96	- S - S - S - S - S - S - S - S - S - S	
Net Profit for the period before tax	(42.86)	(84.36)	(42.86	
Net Profit for the period after tax	(42.50)	(83.62)	(22.10	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(42.50)	(83.62)	(22.10	
Equity Share Capital (Face value of † 10/- per share)	93.43	93.43	93.43	
Other equity / Other Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year				
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised)				
1. Basic:	(4.55)	(8.95)	(2.37	
2. Diluted:	(4.55)	(8.95)	(2.37	

he believe is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Requisition of the above periods. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Requisition Stock Exchanges under Requisition 33 of the SSE! [Listing Obligations and disclosure Requirements] Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Regulate are available on the Stock Exchange Website owns briefled com and on the Company website www.anandprojects.com. (Email id - companysecretary@ anandprojects.com) in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Altairs. Eguines have been regrouped / rearranged wherever necessary. Eguines have been regrouped / rearranged wherever necessary. Directors at their respective meetings held on November 1, 200 and have been subjected to a *Limited Review* by the Statutory Auditors.

For and on behalf of the Board of Directors of Anand Projects Limited

Alok Kumar Gupta Whole Time Director & CFO DIN - 06555961

FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

AMARNATH SECURITIES LIMITED

(CIN L67120GJ1994PLC023254)
Styndardd Ollice V 196 Gartha-Opp C T Centre Gill Swaziti Cross Road C G. Road
Mandeddad 380 003 Onjawa Linda Tei No. – 91 073 3061 3930, Fax Hai 2066 95619
Emille bahandhisturikesi@punlacen. Website: www.amammhiscurines.com.

E-mail or Distribution of the Committee of the Committee

to learns used in this Advertisement have the same meaning assigned to them in the PA and DLoQ. LoQ issued surface its so therwise specified.

Completion of Dispatch of Learn and in Sph of the COVID-19 estuation, the LoQ has been also choosed by dispatched to all the Interns of the Relational Circulate and in Sph of the COVID-19 estuation, the LoQ has been also choosed by dispatched to all the Eliphibe Share-midrors bedring Equity Shares as not itentified Date Le. Tousday, November 03, 2020 and whose E-mail lobs have been registered with dispositionish the Company. Acquired, Manager the Offer and Registers to the Offer have not undertaked any physical dispatch of the LoQ, in complained with the Relaxation Circular.

Any physical displached that ALO, in displacement were in a hardward production of the production of the production of SEBI (www.sebi.gov.lm). Target Company physical Company check and the production of the Company physical Company check and the Company physical Company physical Company check and physical Company check and physical Company physical physical Company physical physic

MANAGER TO THE OFFER

RIGISTIANTO THE OFFER

Bigshars Services Private Limited

1st Foor, Bharst Thi Works Building, Opp. Vasant Oasis
Makwarsa Road, Marol, Andheri (East), Mumbai 400 05

Maharsatora, Marol, Andheri (East), Mumbai 400 05

Talt + 91 + 020 625 8200.

Website +www. Sighsharonine.com
Email: openoffer@bigsharonine.com
Contact Pressus (Kr. Andhe Tandel)

SESI Registration Na: NR0000001385 CapitalSquare Advisors Private Limited 208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbel 400 093, Maharashtra, India, Tel: +91-22-5684 9999/+91-987428 3532.

Website: www.capitalisquare.in Email: tanmoy banerjee@capitalsquare.in / mb@capitalsquare.in Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee SEBI Registration No: INM000012219

Activity	Date	Day
Last data by which Board of the Target Company shall give its recommendation	November 13, 2020	Friday
Last date for revising the Offer Price/ Number of Shares	November 17, 2020	Tuesday
Last date for Offer Opening Public Announcement	November 17, 2020	Tuesday
Commencement of Tendering Period	November 18, 2020	Wednesday
Closing of Tendering Period	December 02, 2020	Wednesday
Last Date by which all requirements including payment of consideration		
would be completed	December 16, 2020	Wednesday

- 4) Other inflatomation.
 3 The information contained in this Advantisement is in accordance with the Relaxation Circular.
 5 Details resident to the precedure for implement and entire particularly set out in the Letter of Offse.
 5 The Advantisement will also be available on the weekels of SEBI (www.sobl.govin), the Target Company (www.amsratisecuridis.com), Registrar to the Offse (www.dolgsharseonline.com), Manager to the Offse (www.dolgsharseonline.com).

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

CAPITALSQUARE

Manager to the Office

Private Limited

(seeing traillers to sees valve

Manager to the Office

Man

🕮 एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

्ष् श्रीह्युल्य कर्माशियल रिकार्ट अधिकः १९-४, धुनेश्वर गार्डन, असमेर रोड्, अपपुर-३०२०० पारिशियाटी (देस्स शिवस स् (1) पार

व्यविक्रास्त्र (देशा विद्या है ६) के स्वाराष्ट्रका विक्रा कर कि विक्रा है कि विक्र

के 3 में स्थापके अर्था है की रिकार के अर्था के अर्था के अर्था के अर्था है की रिकार के अर्था है की रिकार के अर्था के अर्था के की रिकार के अर्था के अर्थ के अर्था के अर्थ के अर

दिनांकः 87 नवन्तर, १०१० स्थान : दिल्ली प्राधिकृत स्वधिकारी प्रयू स्थील काइनीस बेंक लिमिटेड

्या वसून् अधिवारण, नाटानक (जा निर्देश)

(जा नेद्रेश के मान्याधिकारण थे)

(जा नेद्रेश के मान्याधिकारण थे)

आहे म 1919 का 1919

आहे म 1919 का 1919

(मान अपानी अधिकारण (श्रीकार नियमकारण) 1919 के नियम 12 का 191 के नाम पटिल के का मान्याधिकारण (श्रीकार नियमकारण) 1919 के नियम 12 का 1919 के नाम पटिल के का मान्याधिकारण के मा

में का वें, प्रियं अधिक प्रश्नावर्षिक प्रस्के प्रीवारण सीवार्ष कर एवं सिकान (धार्म सी प्रास्त्र प्रीत्र क्रियं) विकास प्रत्यक्त कर प्रत्ये के प्राप्त्र से प्रत्ये क्रियं क्षित्र क्रियं क्ष्मियं क्रियं क्रियं क्रियं क्ष्मियं क्रियं क्षित्र क्ष्मियं क्ष्म

र्गीबस्तार क्या चयुली अधिकाण, लखनक

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD.

OR 155250 1997 FIZALIS

Rept. Office 9-34, First For Green states from -1 live Dehr. 110 04,

10-011-0015758, Fiz. 101-41633131, Web - www.japanpal.com, finali: japanpalhance

	Unaudited				
MATICULARS	Quarter anded	Half year ended	Quarter ended		
	34:09.2020	30.09.2020	10.09.2011		
Total income from operation (net)	6.71	24.11	(26.12)		
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tixx	4.56	16.85	(28.79)		
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	4.56	16.85	(28.79)		
Equity Share Capital	550.04	550,04	550.04		
Reserves Jestiluting Revaluation Reserve at shown in the fialance Sheet of previous)					
Earning Per Share (before extraordinary items) (Face Yakue Rs. 107- each) - Basic - Diluted	0.05	0.31	(0.52)		
Earning Per Share (after extraordinary items) (Face Value Rs. 10/- each) - Basic - Diluted	0.05	0.51	(0.52)		

Place : New Delhi Date : November 11, 2020

इल्लोरा ट्रेडर्स लिमिटेड CDH: L27101UP1985PLC007438 पंजीकृत कार्यालयः 1e/88. दि शाल. कानपुर-2080 अध्यक्षक कार्यालयः 1e/88. दि शाल. कानपुर-2080 अध्यक्षक कार्यालयः विश्वक्षक विश्वक्षक अध्यक्षकी श्रीधा (पारतीय श्रीधानि के विशिष्क वार्षिक विश्वक्षका प्रकार पर प्रकार । विश्विक, 2015 से विश्वक 47(1)(क) से अनुकरण से)

(e yrra d)
source transft source found
so theses so substitute for a subst tower front to a charact to a charact front 2.37 ह्याजन से कुत गजन्य अरुपि के लिए नियत जरूप (+) / सानि (-) (क्य और जयाजात्मक नदों से पूर्व) अरु पूर्व अवस्थि के लिए नियत लगा (+) / सानि [-) (क्याजात्मक नदों के बाद) -25.89 -26.40 -25.89 -0.86 (-) हिरण्याराम्मक परां के यादा मार प्राप्तात अठाँत के जिल निकार लाग (-) / व्राप्ति (-) हिरण्याराम्मक बाते के यादा अठाँत के तिर पुत्ता स्मान्य करणा (अठाँत के केट्रिंग कर्मा / व्राप्ति हिर्म प्राप्तात आणित) क्षेत्रिकों के तिर पुत्ता स्मान्य कर्मा क्षेत्रिकों क्षेत्र करणाव्यों आणित क्षेत्र (क्षेत्र क्षेत्र क्षेत -26.40 25.89 -0.88 132 23 -0.88 -0.86 -0.63

स्थातः कोजुकाता

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड dult, minf.: sos, mg fruit etum, sr, etroder eta, vei freu CIN: LT4110DL1940PLCD10676 who 91-11 -40040685

	30 सिवन्बर, 2020 को समान्त्र विवादी/क्ष्माती के लिए बनकेदित विवादि परिणाय (क सान्त्री में)							
* *	Raem	समाप्त विभावी 30.09.2020 वार्गवे विश	समाध्य अभावी ३०.००.२०२० अनंबेशिय	समाच विकास वर्ष 21.03.2020 वर्ष विका				
1	प्रवालन से कुल कार (गुद्ध)	34.98	74.71	4313.00				
2	अवधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि) (कर, अपवादारमक ऑर/व जनाधारण गर्दा से पूर्व)	3.58	16.37	132.28				
3	कर से पूर्व अवधि के जिए मुख लाग/(हानि) (क्यवादात्मक बीर/ध कसाधारण मदों के शद)	1.56	16.37	132.26				
•	कर के बाद अवधि से लिए शुद्ध लाग/(erft) (अपबादात्मक और/च असाधारण नहीं के बाद)	2.34	11.82	95.34				
6	अवधि के दिए कुल स्वारक जाय (जनति के दिए लाग/(वालि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आग (कर के बाद) शामित्र]	1.73	11.66	106.99				
	इक्टिंग रोयर पूंची	702.06	102.05	702.05				
7	विकास वर्ष की अविकाद वैजेश शीद में दिखाए अनुसार रिजर्व (पुनर्गुज्यांकन रिजान को प्रोटकर)							
	जीते तीवर आब (असामारण गर्दी की बाद) (जलके हैं 10 /-) वेतिक : बायरजुटिक	0.03 0.03	0.17 0.17	1.36				

11 नवम्बर, स्टेडक को आमंत्रित बैठक में 30 विश्वनंबर, स्टेडक को सम्बाद डिम्पडी के किए वपरोध अनंबिक्त कियाब वीराम्बर्ग की समीहत जेला कीता समिति द्वारा की गई है और किए निरोध लेकन स्टाह अन्ब्रीटिंग किया करते.